



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062023-246748
CG-DL-E-22062023-246748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2023/आषाढ 1, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2023/ASHADHA 1, 1945

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(स्थापना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

सं. ए-19011/7/2023-स्था.:—राष्ट्रपति, श्री टी. के. रामचन्द्रन, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 1991) को दिनांक 19.06.2023 (पूर्वाह्न) से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. लक्ष्मणन, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Estt. Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2023

No. A-19011/7/2023-Estt.:—The President is pleased to appoint Shri T.K. Ramachandran, IAS (TN:1991) as Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways w.e.f 19.06.2023 (FN).

R. LAKSHMANAN, Jt. Secy. (Administration)

3965 GI/2023